

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 अगस्त 2018 — भाद्रपद 7, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-25/2018/1 (एक). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) विनियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करली है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियम में,-

परिशिष्ट में, सरल क्रमांक 33 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“34. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी वर्ग 'ख' का एक पद.”

यह संशोधन दिनांक 2 मार्च, 2009 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

यह परिशिष्ट ऐसा पढ़ा जायेगा और अर्थ लगाया जायेगा जैसे कि उपरोक्त संशोधन उसमें नहीं किया गया था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीता शांडिल्य, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 6-25/2018/1 (एक).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-25/2018/1 (एक), दिनांक 29-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीता शान्दिल्य, सचिव.

Naya Raipur, the 29th August 2018

#### NOTIFICATION

No. F 6-25/2018/1(One). — In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1957, namely :-

#### AMENDMENT

In the said regulation,-

In the appendix, after serial number 33 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

- “34. One post of Chief Municipal Officer Class ‘B’ under the Urban Administration and Development Department.”

This amendment shall come into force with retrospective effect from the date of 2nd March, 2009.

This appendix shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REETA SHANDILYA, Secretary.